



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1984/ज्येष्ठ 16, 1906

No. 199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1984/JYAISTHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जून 1984

सां० का० नि० 436(अ)/आष०/ईख केन्द्रीय सरकार
ईख (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करने हुए और उसके उपखण्ड (1) में
वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधि-
कारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात्
जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है और
ईख की आधार्मिक न्यूनतम कीमत 13 50 रुपये प्रति
क्विंटल के आधार पर जो 8 5 प्रतिशत या उससे कम
बसूली में सहबद्ध है, जिसके साथ 8 5 प्रतिशत से अधिक
की प्रत्येक 0 1 प्रतिशत की बसूली की वृद्धि पर 15 8824
पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है इससे उपाबद्ध अनुसूची
के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत का उस न्यूनतम कीमत
के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ (2)
में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया
वाले चीनी कारखानों के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकारियों

द्वारा उनके कारखानों के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर
30 मितम्बर, 1984 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष
1983-84 के लिये परिवर्तित ईख के लिये सदेय होगी
किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3 के अधीन उसके
लिये सदेय रिबेट के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	फैक्ट्री का नाम	गन्ने कारूपों से प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य
1	2	3
1	दिपाडिचेरी का अ पेटिव शुगर मिल्स लि० लिगरेड्डोपलयम पाडिचेरी 605503	13 50
2	दिनागार्जुना का अ पेटिव शुगर मिल्स लि०, गुरजाला, जिला गन्टूर 522415 (आ० प्र०)	13. 50

[सं० 3 1/83-एस०पी०वाई० (डी-II)]

एन०आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1984

G.S.R. 436 (E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.50 per quintal, linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.8824 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price notified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the

factory or any purchasing centre for the sugar year 1983-84, ending the 30th September, 1984, subject to the rebates payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	The Pondicherry Co-operative Sugar Mills Ltd., Lingareddipalayam, Pondicherry-605503.	13.50
	The Nagarjuna Co-operative Sugars Ltd., Gurazala, Distt. Guntur-522415 (A.P.)	13.50

[No. 3-1/83-SPY (D.II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)